



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 399]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 13, 2018/ज्येष्ठ 23, 1940

No. 399]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 13, 2018/JYAISTHA 23, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2018

सा.का.नि. 554 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श के उपरांत केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्

- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) तृतीय संशोधन नियम, 2018 है।
(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 43-ग में-
 - उप-नियम (2) के खंड (ख) में, "बाईस वर्ष से कम आयु के बालक" शब्दों के स्थान पर "किसी भी आयु की संतान" शब्द रखे जाएंगे।
 - उप-नियम (3) के खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
“(iii) शिशु देखभाल छुट्टी एक बार में 5 दिन से कम अवधि के लिए प्रदान नहीं की जाएगी”।

[फा. सं. 13018/6/2013-स्था. (छुट्टी)]

जी.डी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 940, तारीख 8 अप्रैल, 1972 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात्, निम्नानुसार संशोधित किए गए थे :-

क्रम सं..	अधिसूचना की संख्या	तारीख	जी.एस.आर. संख्या	जी.एस.आर. तारीख
1	16(3)-ई-IV(क)/71	11.1.1972	2724	4.11.1972
2	4(7)-ई-IV(क)/72	30.4.1973	1399	19.5.1973
3	5(15)-ई-IV(क)/73	13.7.1973	821	14.8.1973
4	14(10)-ई-IV(क)/73	11.6.1974	इस समय उपलब्ध नहीं है	
5	5(8)-ई-IV(क)/73	19.7.1974	818	3.8.1974
6	14(8)-ई-IV(क)/74	2.11.1974	1242	23.11.1974
7	16(3)-ई-IV(क)/74	20.12.1974	1374	28.12.1974
8	16(5)-ई-IV(क)/74	11.4.1975	526	26.4.1975
9	16(8)-ई-IV(क)/74	26.5.1975	686	7.6.1975
10	4(1)-ई-IV(क)/74	24.6.1975	834	12.7.1975
11	16(8)-ई-IV(क)/74	20.9.1975	2876	27.12.1975
12	5(7)-ई-IV(क)/75	2.12.1975	2877	27.12.1975
13	5(16)-ई-IV(क)/73	15.1.1976	इस समय उपलब्ध नहीं है	
14	16(6)-ई-IV(क)/74	31.7.1976	1184	14.8.1978
15	16(3)-ई-IV(क)/76	7.10.1976	1587	13.11.1976
16	4(9)-ई-IV(क)/76	14.3.1977	611	14.5.1977
17	14(11)-ई-IV(क)/76	12.9.1978	1159	23.9.1978
18	14025/1/78-ई-IV(क)	4.10.1978	1255	21.10.1978
19	13024/1/76-ई-IV(क)	29.8.1979	1150	15.9.1979
20	11022/1/77-ई-IV(क)	21.11.1979	1422	1.12.1979
21	14018/1/80-एल यू	21.11.1980	1260	13.12.1980
22	16(19)-ई-IV(क)/76	31.12.1980	263	24.11.1981
23	11012/2/80-स्था. (छुट्टी)	24.8.1981	811	5.9.1981
24	14028/9/80-स्था. (छुट्टी)	1.10.1981	927	17.10.1981
25	14025/9/80-स्था. (छुट्टी)	16.4.1982	423	8.5.1982
26	13023/2/81-स्था. (छुट्टी)	16.4.1983	430	4.6.1983
27	14028/8/82-स्था. (छुट्टी)	27.7.1983	489	13.8.1983
28	131023/2/81-स्था. (छुट्टी)	12.10.1983	804	5.11.1983
29	14028/6/81-स्था. (छुट्टी)	17.10.1973	350	24.3.1983
30	13015/11/82-स्था. (छुट्टी)	25.5.1984	566	9.6.1984
31	18011/3/80-स्था. (छुट्टी)	12.7.1984	788	28.7.1984
32	14028/1/81-स्था. (छुट्टी)	19.7.1984	817	4.8.1984
33	14028/16/82-स्था. (छुट्टी)	31.5.1985	558	15.6.1985
34	13014/1/85-स्था. (छुट्टी)	3.12.1985	1139	14.12.1985
35	14028/19/86-स्था. (छुट्टी)	9.12.1986	1072	14.12.1985
36	13023/20/84-स्था. (छुट्टी)	11.12.1986	1102	27.12.1986
37	13014/1/87-स्था. (छुट्टी)	17.6.1987	515	4.7.1987
38	11012/1/85-स्था. (छुट्टी)	23.6.1987	516	4.7.1988
39	14028/18/86-स्था. (छुट्टी)	23.3.1988	260	9.4.1988

40	11012/1/85-स्था. (छुट्टी)	6.6.1988	476	18.6.1988
41	13012/12/86-स्था. (छुट्टी)	10.3.1989	198	25.3.1989
42	13026/2/90-स्था. (छुट्टी)	22.10.1990	55	26.1.1991
43	11014/3/89-स्था. (छुट्टी)	2.5.1991	303	18.5.1991
44	11014/3/89-स्था. (छुट्टी)	21.1.1992	49	8.2.1992
45	13026/2/90-स्था. (छुट्टी)	4.3.1992	119	14.3.1992
46	13026/2/90-स्था. (छुट्टी)	20.4.1993	225	8.5.1993
47	13018/7/94-स्था. (छुट्टी)	31.3.1995	317(अ)	31.3.1995
48	14028/10/91-स्था. (छुट्टी)	8.8.1995	385	19.8.1995
49	14028/4/91-स्था. (छुट्टी)	18.9.1995	442	7.10.1995
50	14015/2/97-स्था. (छुट्टी)	31.12.1997	727(अ)	31.12.1997
51	13026/1/99-स्था. (छुट्टी)	18.4.2002	149	27.4.2002
52	13026/1/2002-स्था. (छुट्टी)	15/16.1.2004	186	5.6.2004
53	14028/1/2004-स्था. (छुट्टी)	13.2.2006	47	4.3.2006
54	13018/4/2004-स्था. (छुट्टी)	31.3.2006	91	27.4.2006
55	13023/3/98-स्था. (छुट्टी), खंड.॥	26.10.2007	229	3.11.2007
56	11012/1/2009-स्था. (छुट्टी)	1.12.2009	170	5.12.2009
57	13026/1/2010-स्था. (छुट्टी)	12.5.2011	160	12.5.2011
58	13026/5/2010-स्था. (छुट्टी)	5.8.2011	601(अ)	5.8.2011
59	14028/1/2010-स्था. (छुट्टी)	26.8.2011	646(अ)	26.8.2011
60	13018/4/2011-स्था. (छुट्टी)	27.8.2011	648(अ)	27.8.2011
61	13026/4/2011-स्था. (छुट्टी)	26.12.2011	898(अ)	26.12.2011
62	13026/3/2011-स्था. (छुट्टी)	28.3.2012	255(अ)	28.3.2012
63	13026/2/2010-स्था. (छुट्टी)	29.3.2012	261(अ)	29.3.2012
64	13026/5/2011-स्था. (छुट्टी)	4.4.2012	283(अ)	4.4.2012
65	13026/4/2012-स्था. (छुट्टी)	18.2.2014	96(अ)	18.02.2014
66	13026/4/2012-स्था. (छुट्टी)	17.4.2014	286(अ)	17.04.2014
67	13018/6/2013-स्था. (छुट्टी)	09.10.2014	711(अ)	09.10.2014
68.	13026/2/2016-स्था. (छुट्टी)	15.03.2017	251(अ)	15.03.2017
69.	13023/1/2017-स्था. (छुट्टी)	01.01.2018	08(अ)	03.01.2018
70.	18017/1/2014-स्था. (छुट्टी)	03.4.2018	438(अ)	09.05.2018

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th June, 2018

G.S.R. 554(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, namely: -

1. (i) These rules may be called the Central Civil Services (Leave) Third Amendment Rules, 2018.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, in rule 43-C, -
- (a) in sub-rule (2), in clause (b), for the words "a child below the age of twenty-two years", the words "an offspring of any age" shall be substituted.
- (b) in sub-rule (3), after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:-
- "(iii) Child care leave may not be granted for a period less than 5 days at a time."

[F.No.13018/6/2013-Estt.(L)]

GYANENDRA DEV TRIPATHI, Jt. Secy.

Footnote: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide No. S.O. 940, dated the 8th April, 1972 and have been subsequently amended vide:-

S. No.	Number of the notification	Date	GSR. No.	GSR date
1	16(3)-E.IV(A)/71	11.1.1972	2724	4.11.1972
2	4(7)-E.IV(A)/72	30.4.1973	1399	19.5.1973
3	5(15)-E.IV(A)/73	13.7.1973	821	14.8.1973
4	14(10)-E.IV(A)/73	11.6.1974	Not readily available	
5	5(8)-E.IV(A)/73	19.7.1974	818	3.8.1974
6	14(8)-E.IV(A)/74	2.11.1974	1242	23.11.1974
7	16(3)-E.IV(A)/74	20.12.1974	1374	28.12.1974
8	16(5)-E.IV(A)/74	11.4.1975	526	26.4.1975
9	16(8)-E.IV(A)/74	26.5.1975	686	7.6.1975
10	4(1)-E.IV(A)/74	24.6.1975	834	12.7.1975
11	16(8)-E.IV(A)/74	20.9.1975	2876	27.12.1975
12	5(7)-E.IV(A)/75	2.12.1975	2877	27.12.1975
13	5(16)-E.IV(A)/73	15.1.1976	Not readily available	
14	16(6)-E.IV(A)/74	31.7.1976	1184	14.8.1978
15	16(3)-E.IV(A)/76	7.10.1976	1587	13.11.1976
16	4(9)-E.IV(A)/76	14.3.1977	611	14.5.1977
17	14(11)-E.IV(A)/76	12.9.1978	1159	23.9.1978
18	14025/1/78-E.IV(A)	4.10.1978	1255	21.10.1978
19	13024/1/76-E.IV(A)	29.8.1979	1150	15.9.1979
20	11022/1/77-E.IV(A)	21.11.1979	1422	1.12.1979
21	14018/1/80-LU	21.11.1980	1260	13.12.1980
22	16(19)-E.IV(A)/76	31.12.1980	263	24.11.1981
23	11012/2/80-Est.(L)	24.8.1981	811	5.9.1981
24	14028/9/80-Est.(L)	1.10.1981	927	17.10.1981
25	14025/9/80-Est.(L)	16.4.1982	423	8.5.1982
26	13023/2/81-Est. (L)	16.4.1983	430	4.6.1983
27	14028/8/82-Est.(L)	27.7.1983	489	13.8.1983
28	131023/2/81-Est.(L)	12.10.1983	804	5.11.1983
29	14028/6/81-Est.(L)	17.10.1973	350	24.3.1983
30	13015/11/82-Est.(L)	25.5.1984	566	9.6.1984
31	18011/3/80-Est.(L)	12.7.1984	788	28.7.1984
32	14028/1/81 -Est.(L)	19.7.1984	817	4.8.1984
33	14028/16/82-Est.(L)	31.5.1985	558	15.6.1985

34	13014/1/85-Est.(L)	3.12.1985	1139	14.12.1985
35	14028/19/86-Est.(L)	9.12.1986	1072	14.12.1985
36	13023/20/84-Est.(L)	11.12.1986	1102	27.12.1986
37	13014/1/87-Est.(L)	17.6.1987	515	4.7.1987
38	11012/1/85-Est.(L)	23.6.1987	516	4.7.1988
39	14028/18/86-Est.(L)	23.3.1988	260	9.4.1988
40	11012/1/85-Est.(L)	6.6.1988	476	18.6.1988
41	13012/12/86-Est.(L)	10.3.1989	198	25.3.1989
42	13026/2/90-Est.(L)	22.10.1990	55	26.1.1991
43	11014/3/89-Est.(L)	2.5.1991	303	18.5.1991
44	11014/3/89-Est.(L)	21.1.1992	49	8.2.1992
45	13026/2/90-Est.(L)	4.3.1992	119	14.3.1992
46	13026/2/90-Est.(Leave)	20.4.1993	225	8.5.1993
47	13018/7/94-Estt.(L)	31.3.1995	317(E)	31.3.1995
48	14028/10/91-Estt.(L)	8.8.1995	385	19.8.1995
49	14028/4/91-Estt.(L)	18.9.1995	442	7.10.1995
50	14015/2/97-Estt.(L)	31.12.1997	727(E)	31.12.1997
51	13026/1/99-Estt.(L)	18.4.2002	149	27.4.2002
52	13026/1/2002-Estt.(L)	15/16.1.2004	186	5.6.2004
53	14028/1/2004-Estt.(L)	13.2.2006	47	4.3.2006
54	13018/4/2004-Estt.(L)	31.3.2006	91	27.4.2006
55	13023/3/98-Estt.(L), Vol.II	26.10.2007	229	3.11.2007
56	11012/1/2009-Estt.(L)	1.12.2009	170	5.12.2009
57	13026/1/2010-Estt.(L)	12.5.2011	160	12.5.2011
58	13026/5/2010-Estt.(L)	5.8.2011	601(E)	5.8.2011
59	14028/1/2010-Estt.(L)	26.8.2011	646(E)	26.8.2011
60	13018/4/2011-Estt.(L)	27.8.2011	648(E)	27.8.2011
61	13026/4/2011-Estt.(L)	26.12.2011	898(E)	26.12.2011
62	13026/3/2011-Estt.(L)	28.3.2012	255(E)	28.3.2012
63	13026/2/2010-Estt.(L)	29.3.2012	261(E)	29.3.2012
64	13026/5/2011-Estt.(L)	4.4.2012	283(E)	4.4.2012
65	13026/4/2012-Estt.(L)	18.2.2014	96(E)	18.02.2014
66	13026/4/2012-Estt.(L)	17.4.2014	286(E)	21.04.2014
67	13018/6/2013-Estt.(L)	05.6.2014	711(E)	09.10.2014
68	13026/2/2016-Estt.(L)	15.3.2017	251(E)	15.03.2017
69	13023/1/2017-Estt.(L)	01.1.2018	08(E)	03.01.2018
70	18017/1/2014-Estt (L)	3.4.2018	438(E)	09.05.2018